

प्रदीप माथुर, श्री

निर्वाचन क्षेत्र-84, मथुरा,

जिला- मथुरा।

दल- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।



पिता का नाम	स्व० राजेन्द्र विहारी माथुर
जन्मतिथि	25 नवम्बर, 1955
जन्मस्थान	दिल्ली
धर्म	हिन्दू
जाति	कायस्थ
शिक्षा	बी०एस-सी० (आनर्स), एल-एल०बी०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी
विवाहतिथि	4 नवम्बर, 1984
पत्नी का नाम	श्रीमती प्रीति माथुर
सन्तान	एक पुत्र, दो पुत्री
व्यवसाय	उद्योग (कारखाना आदि), गारमेन्ट एक्सपोर्ट हाउस, वकालत (इण्डस्ट्रियल कंसलटेंसी)।
मुख्यावास	ए-11/2, कृष्णा नगर, जिला- मथुरा।
जिन पदों पर कार्य किया	
1985, मार्च	नवीं विधान सभा के सदस्य पहली बार निर्वाचित
2002, फरवरी	चौदहवीं विधान सभा के सदस्य दूसरी बार निर्वाचित
2003- 2007	सदस्य, लोक लेखा समिति
2007, अप्रैल- मई	पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्य तीसरी बार निर्वाचित
2007- 2012	सदस्य, अधिष्ठाता मण्डल
2007- 2012	सभापति, स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बंधी समिति
2012, मार्च	सोलहवीं विधान सभा के सदस्य चौथी बार निर्वाचित
2012, जून	नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधान मण्डल दल
विशेष अभिरूचि	समाज सेवा, संगीत, बुद्धिजीवी व्यक्तियों से मिलना, उच्चकोटि की पुस्तकों का अध्ययन, ऐतिहासिक व पर्यटन

स्थलों का भ्रमण, अस्वस्थ जनों का इलाज कराना, मथुरा के विकास व यमुना को प्रदूषण मुक्त कराने में विशेष रुचि।

विदेश यात्रा

नेपाल , इंग्लैण्ड, स्विटजरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, बैंकाक, सिंगापुर आदि।

अन्य जानकारी

उपाध्यक्ष, अमरनाथ विद्याश्रम, मथुरा, संरक्षक, चौ० नवाब सिंह चेतना समिति, श्री कृष्ण विद्यालय कसावल, मथुरा (1985 से), 1981 में एक दुर्घटनाग्रस्त ब्राह्मण व्यक्ति के परिवार की सहायता करने पर सर्वश्रेष्ठ समाजसेवी के रूप में उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल व शासन ने 1000/-रु० की धनराशि व प्रशस्ति- पत्र द्वारा एवं दिल्ली की संस्था 'मानव सेवा महत्व' द्वारा वर्ष 1983-84 में स्वर्ण पदक से सम्मानित, सदस्य, मथुरा ग्रेटर- जेसीस (कई वर्षों तक), अनेक नेत्र शिविरों का भी आयोजन, विधवाओं के लिए पेंशन, निर्धनों के लिए ऋण, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, अध्यक्ष, 'मुफ्त कानूनी सहायता समिति' (श्रीमती इन्दिरा गांधी की मृत्यु के बाद हुए झगड़ों को निपटाने के लिए बनी समिति), महामंत्री व उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (अनेक वर्ष तक), वर्ष 1989 एवं 1998 में जन समस्याओं के निराकरण के लिए जन आन्दोलनों और मथुरा में गांधी आश्रम को ध्वस्तीकरण से बचाने तथा साध्वी ऋतम्भरा को गलत ढंग से उद्यान विभाग की 41 एकड़ भूमि के पट्टे दिये जाने के विरोध आंदोलन में भाग लिया और मथुरा व बिजनौर जिला कारागार में बन्दी रहे।

मथुरा

विधान सभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम

कुल मतदाता	3,58,237	
कुल मतदान	2,00,654	
पहले दो प्रमुख उम्मीदवारों को मिले वोट:-	कुल वोट	प्रतिशत में
1. श्री प्रदीप माधुर (भा०रा०कां०)	54,498	27.16
2. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा (भा०ज०पा०)	53,997	26.91